

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012020-215188
CG-DL-E-07012020-215188

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]
No. 78]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/PAUSHA 16, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 06 जनवरी, 2020

सं. 02/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 80(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित नोटिसी के संदर्भ में, कॉलम (2) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों को प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने एवं सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कॉलम (4) में उल्लेखित अधिकारियों को नियुक्त करती है, यथा:—

सारणी

नोटिसी/नोटिसियों का नाम और पता (मैसर्स)	कारण बताओं नोटिस संख्या और दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का नाम	सभी के लिए नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
सिस्को कॉमर्स इण्डिया प्रा.लि., प्रेस्टिज सोल्टीटेयर, लेवल-II, सं. 6, ब्रुनटोन रोड, बेंगलोर-560001	(i) एस44/02/19/2013 एसवीबी बीएनजी. बीएसीसी. जीआर. 5ए, दिनांक 13 अगस्त, 2018.	(i) उप या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, ग्रुप VA, प्रधान आयुक्तसीमाशुल्क का, एयरपोर्ट और एयर कार्गो, कार्यालय एयर इण्डिया एसएटीएस, कॉम्प्लेक्स एयरफ्रेट टर्मिनलबंगलूरू अंतर्राष्ट्रीय, 560300-हवाई अड्डा देवनहल्ली बंगलूरू	उप या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, ग्रुप VA, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क का कार्यालय, एयरपोर्ट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर इण्डिया एसएटीएस एयरफ्रेट टर्मिनल, बंगलूरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवनहल्ली बंगलूरू-560300
	(ii) एस मिस्क 623/2019-जीआर(5ए) एसीसी, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018.	(ii) उप या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, ग्रुप VA, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क का कार्यालय, एयरपोर्ट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, चेन्नई-VII, न्यू कस्टम हाउस, मीनाबक्कम, चेन्नई-600027.	
	(iii) सी सं. VIII/12/एसीसी-इम्पोर्ट/जीआर-VA/सिस्को कॉमर्स/144/2019, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019.	(iii) उप या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, ग्रुप VA, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क का कार्यालय, (आयात), एसीसी-आयात, न्यू कस्टम हाउस, आईजीआईए के समीप, नई दिल्ली-110037.	
	(iv) फा.सं. एस/3-एमआईएससी-25/2019-जीआर VA, एसीसी, दिनांक 04 नवम्बर, 2019.	(iv) उप या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, ग्रुप VA, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क का कार्यालय, (आयात), मुम्बई एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (ई), मुम्बई-99	

[फा. सं. 451/29/2019-कस्टम-V]

प्रमोद कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(THE CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2020

No. 02/2020-Customs (N.T.)

S.O. 80(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints officer mentioned in column (4) of the Table below to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column No. (3) of the said Table in respect of noticee mentioned in column No. (1) of the Table, for the purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column No. (2) therein, namely:—

TABLE

Name of the Noticee (s) and Address (M/s.).	Show cause notice number and date.	Name of adjudicating authorities.	Common adjudicating authority appointed.
(1)	(2)	(3)	(4)
Cisco Commerce India Private Limited, Prestige Solitair, Level – II, No. 6, Brunton Road, Bangalore– 560001.	(i) S44/02/19/2013 SVB BNG. BACC. Gr.5A, dated the 13 th August, 2018.	(i) Deputy or Assistant Commissioner of Customs, Gr. VA, O/o the Principal Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Complex, Air India SATS AirFreight Terminal, Bengaluru International Airport, Devanahalli, Bengaluru – 560300.	Deputy or Assistant Commissioner of Customs, Gr. VA, O/o the Principal Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Complex, Air India SATS AirFreight Terminal, Bengaluru International Airport, Devanahalli, Bengaluru– 560300.
	(ii) S Misc 623/2019-GR(5A) ACC, dated the 17 th October, 2018.	(ii) Deputy or Assistant Commissioner of Customs, Group - VA, O/o the Principal Commissioner of Customs (Airport and Air Cargo Complex), Chennai – VII, New Custom House, Meenabakkam, Chennai – 600027.	
	(iii) C. No. VIII/12/ACC – Import/Gr-VA/Cisco Commerce /144/2019, dated the 30 th October, 2019.	(iii) Deputy or Assistant Commissioner of Customs, Group - VA, O/o the Principal Commissioner of Customs (Import), ACC – Import, New Customs House, Near IGIA Airport, New Delhi-110 037.	
	(iv) F. No. S/3-MISC-25/2019-20GR VA, ACC, dated the 04 th November, 2019.	(iv) Deputy or Assistant Commissioner of Customs, Group - VA, O/o the Commissioner of Customs (Import), Mumbai Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (E), Mumbai - 99.	

[F. No. 451/29/2019-Cus.V]

PRAMOD KUMAR, Director